

प्रेस नोट दिनांक 02/11/2020

थाना को० कपिलवस्तु जनपद सिद्धार्थनगर

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री माया राम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण एवं श्री प्रदीप कुमार यादव, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन में तथा प्रभारी निरीक्षक कपिलवस्तु श्री विनोद कुमार राव के नेतृत्व में आज दिनांक 02/11/2020 को कपिलवस्तु पुलिस द्वारा मु० अ० सं० 118/2020 धारा 3(1) यू०पी० गैंगेस्टर एक्ट के तहत अभियुक्त रजआव अली पुत्र मो० सफी उर्फ भुण्डली को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

प्रेस नोट दिनांक 02-11-2020 जनपद सिद्धार्थनगर

सनसनीखेज घटना का हुआ 36 घण्टे में सफल खुलासा।

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, प्रभारी क्षेत्राधिकारी बांसी के पर्यवेक्षण में श्री शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक बांसी, सि०नगर के नेतृत्व में दिनांक 31.10.2020 को समय करीब 21.00 बजे ग्राम भर्थना में चिउटी पुलिया पर हुई चाकू मारने की घटना घटित हुई जिसके संबंध में वादी श्री प्रहलाद पुत्र रामअजोर यादव निवासी सुहई कनपुरवा थाना खेसरहा सि०नगर की सूचना पर दिनांक 01.11.2020 को समय 01.01 बजे पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 341/2020 धारा 307 भा०द०वि० पंजीकृत कर अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित किया गया। घटना से सम्बन्धित प्रकाश में आए अभियुक्त सूरज पाण्डेय को पिपरा फरदंग बाग व अभियुक्त ओमकार को पचमोहनी तिराहा से अन्दर 36 घण्टे में दिनांक 02.11.2020 को गिरफ्तार कर अभियुक्त सूरज पाण्डेय की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद कर, घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय भेजा गया। विवेचना से घटना कैसे के लेनदेन को लेकर होना प्रकाश में आई है। उपरोक्त घटना का सफल अनावरण करने पर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम को **15000 ₹ से पुरस्कृत** किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

- 1.सूरज पाण्डेय पुत्र चन्द्रमणि पाण्डेय निवासी ग्राम पिपरा फरदंग थाना कोतवाली बांसी जनपद सिद्धार्थनगर।
- 2.ओमकार यादव पुत्र रामप्रसाद यादव निवासी ग्राम पचमोहनी थाना खेसरहा जनपद सिद्धार्थनगर।

आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०सं०- 341/2020 , धारा- 307 भा०द०वि०, थाना- कोतवाली बाँसी, जनपद - सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी का स्थान-

- 1.सूरज पाण्डेय पुत्र चन्द्रमणि पाण्डेय उपरोक्त वृहद ग्राम पिपरा फरदंग बाग से
- 2.ओमकार यादव पुत्र रामप्रसाद यादव उपरोक्त ग्राम पचमोहनी तिराहा से

बरामदगी का विवरण-

- 1.घटना में प्रयुक्त चाकू 01 अदद
- 2.घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन 02 अदद
- 3.नकद 2170 रुपए

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण-

- 1.शैलेश कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक, थाना कोतवाली- बाँसी, जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 2.उ0नि0 वीरेन्द्र कुंवर थाना कोतवाली बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 3.उ0नि0 शशांक कुमार सिंह थाना कोतवाली बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 4.उ0नि0 रमेश साहनीथाना कोतवाली बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 5.उ0नि0 जीवन त्रिपाठी थाना कोतवाली बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 6.हे0का0 सुरेश वरुण, थाना कोतवाली बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 7.हे0का0 अशोक कुमारचन्द थाना कोतवाली बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 8.का0 कैलाशनाथ यादव, थाना कोतवाली बाँसी, जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 9.का0 रमेश यादव थाना कोतवाली बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 10.का0 श्यामसुन्दर मौर्या थाना कोतवाली बांसी जनपद- सिद्धार्थनगर ।
- 11.का0 दिलीप द्विवेदी सर्विलांस सेल जनपद सिद्धार्थनगर

प्रेस नोट दिनांक- 02.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत की कार्यवाही में 15 शोहदे पकड़े गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा आज जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 15 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के दूसरे चरण में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 02.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एण्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 15 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत आज जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रिनु एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस नोट दिनांक 02-11-2020

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक जनपद सिद्धार्थनगर व श्री प्रदीप कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, प्रभारी निरीक्षक सिद्धार्थनगर, के नेतृत्व में आज दिनांक 2/11 /2020 को थाना सिद्धार्थनगर पुलिस के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति वाहन की चेकिंग के दौरान नौगढ़ उसका गोरखपुर मार्ग पर चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त रामेश्वर पुत्र लालचंद सा तिधरा महूवरिया थाना उसका बाजार जनपद सिद्धार्थनगर के पास से 01 अदद देसी तमंचा 315 बोर एक अदद जिंदा कारतूस व दो अदद खोखा 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना सिद्धार्थनगर पर मु0अ0सं0 313/2020 धारा 3/ 25 आर्मस एक्ट बनाम पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

प्रेस नोट थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर

आज दिनांक 02.11.2020 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ नगर द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में श्री अवधनरायन यादव प्रभारी निरीक्षक लोटन के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना स्थानीय पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 131/20 धारा 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत सुग्रीव पुत्र रामलाल साकिन बड़हरा बॉर्डर थाना कोतवाली लोटन जनपद सिद्धार्थनगर को 12 शीशी नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

